

### प्रेस नोट दिनांक-21.05.21

इटावा पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर को चोरी की 01 मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ० बृजेश कुमार सिंह के दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा व क्षेत्राधिकारी चकरनगर के नेतृत्व में थाना सहसों पुलिस टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर को चोरी की 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया ।

#### गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 21.05.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए थाना सहसों पुलिस टीम द्वारा हनुमन्तपुरा चौराहे पर संदिग्ध वाहन व्यक्ति चैकिंग की जा रही थी चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो दूसरे राज्यों से मोटरसाइकिल चोरी कर बेचता है, ग्राहक की तलाश में चोरी की मोटरसाइकिल सहित हनुमन्तपुरा चौराहे से आगे सोनपुरा रोड पर खड़ा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना सहसों पुलिस द्वारा मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखकर उक्त व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा जिसे पुलिस टीम द्वारा पीछा कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए मो०साइकिल नं० GJ 01 MK 4757 सहित पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से उक्त मो०साइकिल के कागजात मांगे गये तो दिखाने में असमर्थ रहा। जब 30नि० द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को NCRB की वेबसाइट के माध्यम से चेक किया गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त मोटरसाइकिल थाना शाहपुर जिला अहमदाबाद सिटी, गुजरात क्षेत्र से चोरी हुई है। जिसके सम्बन्ध में थाना शाहपुर अहमदाबाद सिटी पर मु०अ०सं० 37/2011 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

#### पुलिस पूछताछ:-

मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि लॉकडाउन से पहले वह अहमदाबाद सिटी में ही रहता था। जहाँ से वह मोटरसाइकिल चोरी करके लाया था जिसे बेचने की फिराक में था।

उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सहसों पर मु०अ०सं० 52/2021 धारा 411,413 भादवि व 41,102 सीआरपीसी पंजीकृत किया गया।

#### बरामदगी:-

1.01 मोटरसाइकिल नं० GJ 01 MK 4757 (पैशन प्रो)

पुलिस टीम:- श्री गंगादास गौतम थानाध्यक्ष सहसों, 30नि० विश्वनाथ मिश्र मय हमराह

सोशल मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
जनपद इटावा ।